

5th Floor, Transcorp Towers, Moti Doongri Road, Jaipur-302004 (Rajasthan) Telephone: 2363888, 23639999 Fax: 91-141-237 2066 CIN:L51909DL1994PLC235697

Web-Site: www.transcorpint.com
E-mail: corp@transcorpint.com

Date: 02.06.2023

Bombay Stock Exchange 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai

Reg.: Newspaper publication of form DPT-1

Ref.: Transcorp International Limited

Script Code: 532410

Dear Sir,

With reference to above please find enclosed Newspaper publication of form DPT-1.

Kindly post the same on your web site and oblige.

Thanking you

Yours faithfully

For Transcorp International Limited

Dilip Kumar Morwal

Group Company Secretary and Principal Officer (AMLC)

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred unde section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfe the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets Name of the Borrower, Description of the Secured Asset (Immovable Property), Total Outstanding Dues (Rs.) Demand Possession (s)/Co-Borrower(s) All that piece and parcel of :Plot No. 5, Land Area 2091.62 Rs.11,76,109/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Ir.Sharad Kumar Yadav sq. ft., Carpet Area 2311.24 sq. ft., Built-Up Area 2719.10 sq. Six Thousand One Hundred Nine Only) for Mrs.Poonam Yadav ft., situated at Khasra No. 10 & 11 of Mauja Mai Mirjapuraliad 800899 & Rs.23,88,416/- (Rupees Twenty Prospect No 800899 & Damodarpura by the name of Laxmi Nagar Acharya Nagar 09-Mar- 30-May Three Lakh Eighty Eight Thousand Four Extention, Tehsil & District Mathura, U.P.India-281001 Hundred Sixteen Only) for 805056 2023 2023

All that piece and parcel of :Property No. IV/2235, Land Area 360 sq. ft.Out Of Khasra No. 2991/1004/480, Carpet Area Thousand One Hundred Twenty Two Only) Mr. Mohd Ahsan Mr.Mohd Islam Thousand One Hundred Twenty Two Only) 15-Mar-30-May for 971231 & Rs.1,10,289/-(Rupees One Mrs.NaseemaBano 589 sq. ft., Built-Up Area 648 sq. ft., Super Built-Up Area 648 Sara Creation (Prospect sq. ft., situated in the area of village Chandrawali alias 2023 2023 Ten Thousand Two Hundred Eighty No 971231 & 976374) Shahdara in the abadi of Behari colony, Gali No. 2, Illaga Nine Only) for **976374** Shahdara, North East Delhi, Delhi, India-110032 All That Piece And Parcel Of :Apartment No-Sun 6-0202 Rs.4,67,514/- (Rupees Four Lakh Sixty Carpet Area 411 Sq. Ft., Super Built-Up Area 706 Sq. Ft., 10-Mar- 29-May Mrs.Pooja Purohit Seven Thousand Five Hundred Fourteen (Prospect No IL10010598) Plot No-Gh-03, 2nd Floor, Sector-Omicron liird, Migsur 2023 Ultimo, Noida, Uttar Pradesh, India, 201301

16-Auging no.B-97, area admeasuring 56.02 sq. mtrs, out of Khasra no. 30-May Forty Three Thousand Two Hundred Forty Mr Pawan Jain 478, khatakhatoni no. 17/46, Gali Post Office, Shakarpur Prospect No 931056) Mandawali Fazalpur, Illaqa Shahdara, Delhi, 110092, Delhi, India. Six Only) or, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 1st Floor, Tera Tower, Bhuteshwar Road, Manohar Pura, Mathura - 281001 Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi or Corporate Office

Rs,.22,43,246/- (Rupees Twenty Two Lakh

Place: Delhi/ Mathura/Gurgoan Date: 02-06-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

TRANSCORP INTERNATIONAL LIMITED CIN: L51909DL1994PLC235697

Website: www.transcorpint.com, E-mail: grievance@transcorpint.com Phone: 30418901-05, Fax: 91-11-30418906 FORM DPT - 1

Registered office:- Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075

Circular or Circular in the Form of Advertisement Inviting Deposits [Pursuant to section 73(2) (a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014] GENERAL INFORMATION

Name, address, website and other contact details of the company;

All that piece and parcel of: Ground Floor, Built on p

Mrs. Seema Jain

Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana

Name: TRANSCORP INTERNATIONAL LIMITED

Address: i. Registered office: -Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075. ii. Head Office: 5thFloor, Transcorp Towers, Moti Doongri Road, Jaipur-302004, Website: www.transcorpint.com, E-mail: grievance@transcorpint.com, Phone: 0141-4004888, 999, Fax: 0141 4004888

Date of incorporation of the company; 20thDecember 1994

Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any; Business carried on by the company:-Money Changing, Pre paid payment systems & other various business

Branches: Delhi (Barakhamba), Anna Salai (Chennai), Jalandhar, Jaipur, Chandigarh, Kolkata, Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, Dehardun, Jammu, Bangalore, Gurgaon, Ludhiana, Amritsar, Cochin, Vadodara Details of Subsidiaries:-

Name: Ritco Travels and Tours Pvt. Ltd.

Status: Wholly Owned Subsidiary of Transcorp International Limited

Address: 5th Floor, Transcorp Tower, Moti Doongri Road, Jaipur-302004 Business activities: Travels and tours

Name: Transcorp Estates Pvt. Ltd.

Status: Wholly Owned Subsidiary of Transcorp International Limited

Address: C/o IHMR 2nd Floor Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075

Business activities: Renting of/dealing in property and investments Name: Transcorp Payments Ltd.

Status: Wholly Owned Subsidiary of Transcorp International Limited

Address: C/o IHMR 2nd Floor Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075

Business activities: Pre paid payment systems Name: Transwire Forex Ltd.

Status: Wholly Owned Subsidiary of Transcorp International Limited

Address: C/o IHMR 2nd Floor Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075

Business activities: Money Changing

Brief particulars of the management of the company;

Mr. Hemant Kaul, Non-Executive Chairman & Independent Director

Mr. Hemant Kaul brings in rich experience in the financial services industry from having worked in companies such as Bajaj Allianz General Insurance Co Limited (MD & CEO) and Axis Bank Limited (Executive Director).

Mr. Gopal Krishan Sharma, Managing Director

Mr. Gopal Krishan Sharma is working as Managing Director of the Company and having vast experience in money changing and money transfer business.

Mr. Purushottam Agarwal, Independent Director

Mr. Purushottam Agarwal is a retired IAS officer. During his service period, he has worked closely with Government of

Rajasthan regarding the industrial development. Mr. Ashok Kumar Agarwal, Director

Mr. Ashok Agarwal is the Director of Transcorp since the year 1994. Dr. Agarwal has vast experience in diverse

businesses like infrastructure projects, finance and health management. Mr. Agarwal is a Trustee of Indian Institute of Health Management Research, a WHO accredited center and also a

pioneer in health management education in the country. Mr. Agarwal is also a trustee of John Hopkins University, USA.

Mr. Agarwal is a qualified doctor and is well known for his prolific efforts in the field of social work and health

management that extend beyond our borders. Mr. Vedant Kanoi, Director

Mr. Vedant Kanoi is associated with the Company as Director. Mr. Kanoi is having vast experience in various businesses related to e-commerce, real estate etc.

Mr. Sujan Sinha, Independent Director Mr. Sujan Sinha is a senior finance professional, with more than 31/2 decades in the industry, having worked for banks and NBFCs, primarily in the retail field.

Mr. Sinha is a Graduate from Kolkata University in Geology. Mr. Sinha spent more than 14 years with SBI, gaining considerable experience in branch banking, personnel administration as well foreign exchange dealings. He also worked in some private sector groups viz. the east-India headquartered Usha Martin group, in their 50:50 JV with Sumitomo Corporation, Japan, UTI Bank (later renamed as Axis Bank), Shriram Group.

Mrs. Apra Kuchhal is a MBA in Marketing and Finance from IIIM, Jaipur and also done Certificate course in Management Development Program from Indian Institute of Management, Ahmedabad and Certificate of excellence program from National Institute of Information Technology, Jaipur and possess excellent entrepreneurial skills. Mrs. Apra Kuchhal is also working for various social initiatives for women empowerment

Mr. Dilip Kumar Morwal, Group Company Secretary

Mr. Dilip Kumar Morwal is working as Group Company Secretary of the company and is having over 20 years' experience in Accounts, Finance, Legal& Secretarial field.

Mr. Mukesh Kumar Mittal, Interim CFO

Mrs. Apra Kuchhal, Independent Director

Mr. Mukesh Kumar Mittal is working as Interim CFO of the Company. He is a Post graduate in MBA Finance & Marketing and having more than 16 years of experience in Accounts and Finance Field.

e.Names, addresses, DIN and occupations of the directors;

S. No.	Full Name	Present residential address	Designation	DIN	Occupation
1	Mr. Hemant Kaul	A-105, Atray Path Shyam Nagar Jaipur 302019, Rajasthan	Non Executive Chairman	00551588	Consultant
2	Mr. Gopal Krishan Sharma	C -142, The Summit, Park Drive, DLF phase, 5 Golf Course Road, Sector 54, Gurgaon-122011 Haryana	Managing Director	00016883	Service
3	Mr.Purushottam Agarwal	51, Gaurav Nagar, Civil Lines, Jaipur- 302007, Rajasthan	Independent Director	00272598	Consultant
4	Mr. Ashok Kumar Agarwal	D-32 A, Subhash Marg, C-Scheme Jaipur, 302001, Rajasthan	Director	01237294	Business
5	Mr. Vedant Kanoi	D-1103, New Friends Colony, New Delhi Delhi-110025	Director	02102558	Business
6	Mr.Sujan Sinha	D-704, RNA Continental, Subhash Nagar, Chembur East, Mumbai-400071	Independent Director	02033322	Consultant
7	Mrs. Apra Kuchhal	62, Hari Kishan Somani Marg, Hathroi Fort, Ajmer Road, Jaipur-302001	Independent Director	08453955	Business

Management's perception of risk factors;

The company has exposure in foreign exchange and any wide fluctuations in foreign exchange prices have adverse effect on the performance of the company. Further the increase in competition, reduction in profit margins and change in government policies may affect the operation of the company.

Details

The Company has adopted a Risk Management Policy. It has laid down the procedures to inform the Board Members every quarter about the risk assessment and minimization procedures. These procedures are periodically reviewed to ensure the executive management controls various risks by means of properly defined framework.

Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -

(i) Statutory dues;

Particulars

financialexp.epapr.in

NIL except delay in some cases

(ii) Debentures and interest thereon; Not Applicable

(iii) Loan from any bank or financial institution and interest thereon; No default or delay PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

 Date of passing of board resolution; 11th April 2014, 31st July 2015, 22nd July 2016, 23rd October 2016, 27th May 2017, 25th January 2018, 21st July 2018,29th October 2018, 10th August 2019, 20th June 2020, 11th May 2021, 07th May 2022 and 25th May 2023.

Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits; 25th June 2014

Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured; Unsecured Deposit Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made there under, and the

aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months;

1 Amount which the company can Under rule 3(4)(a) of Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014:

	raise by way of deposits as per the Act and rules made there under	R511.56lakhs (10% of the aggregate of the paid-up share capital, free reserve and and securities premium as on 31.03.2023) Under rule 3(4)(b) of Companies (Acceptanceof Deposits) Rules, 2014:₹1278.91lakhs (25% of the aggregate of the paid-up share capital, free reserve and Security prmium as on 31.03.2023)		
2	Aggregate of deposits actually, held on the last day of the immediately preceding financial year.	As on 31.03.2023, ₹ 342.87 lakhs(excluding interest) from 88 Deposit holders (including unclaimed deposits of ₹ Nil)		
3	Aggregate of deposits held on the date	Date of issue of circular or advertisement: 25.05.2023-Rs. 342.87lakhs		

of issue of circular or advertisement Deposit proposed to be raised: Company will raise deposit up to amaximum of and amount of deposit proposed to be amount as Stated in part no.1 raised and amount of repayable Deposit repayable within In the next Amount of deposit repayable within the next Twelve months i.e. by twelve months (i.e. next 2 financial year) 31.03.2024; ₹. 130.87 lakhs and by 31.03.2025; ₹ 142.13 lakhs

Terms of raising of deposits : Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;

Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Kules). exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorise Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) ha issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount men tioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under: Name of the Borrower(s)/ Demand Notice Date & Amount Description of secured asset(immovable proper

Guarantor (s) 30-May-2023 & Rs.31,86,825/- All that piece and parcel of the property being Mr.Vishal, Mrs.Geeta (Rupees Thirty One Lakh Eighty | Entire Property H No. 16/682-B, Land Area) Six Thousand Eight Hundred | Measuring 315 Sq. Ft., Carpet Area Ad Measuring 93 Jagriti Collection Twenty Five Only) for IL10272093 Sq. Ft., and Built Up Area Ad Measuring 1102 Sq. Ft. Mrs.Laxmi, Mr.Raiu & Rs.1,07,175/-(Rupees One Lakh Amrit Kaur Puri, Tank Road, Karol Bagh, Central Delh Raju Rental (Prospect No IL10272093 & Seven Thousand One Hundred Delhi, India, 110005. Seventy Five Only) for 980751 Mr.Mohammad Suhai All that piece and parcel of the property being

Rs.25.04.506/-No. - Gf 3. on Ground Floor, M.I.G., Rear Side, Rh Mrs.Mumtaz Begum (Rupees Twenty Five Lakh Four (Without Roof Rights), Super Built up area 484.4 sq. ff Vasundhara Haat Thousand Five Hundred Six Built on Free Hold Residential Plot No 3/408, Sector (Prospect No Vasundhra, Tehsil and District Ghazibad - 201005 U. If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the abov secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and conse

Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Place: Gurgoan/ Vaishali, Date: 02-06-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

quences of the Borrowers. For, further details please contact to our Branch: Office No 1, First Floor, Mahaluxm

Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010 or Corporate Office: IIFL Tower

Scheme I Non-Cumulative Deposits			Scheme II Cumulative Deposits					
Period	Minimum Deposit Amount	Rate of Interest P.A.	Period	Minimum Deposit Amount	Rate of Interest P.A. (quarterly cumulative)	Maturity Value	Effectiv Yield P.A.	
	(in Rs.)	8	V.	(in Rs.)	8	(in Rs.)		
1 Year	50,000	6.50%	1 year	50,000	6.66%	53,330	7.16%	
2 Year	50,000	7.00%	2 years	50,000	7.44%	57,444	7.94%	

Interest Rate on deposits from Trust/Societies as well as on single deposit exceeding Rs. 50 Lakhs will be as mutually decided between the parties' subject to an overall limit.

Mode of payment and repayment: By cheques/Demand Drafts/transfer to bank account f. Proposed time schedule mentioning the date of opening of the scheme and the time period for which the

circular or advertisement is valid; Date of opening the scheme: 25th May 2023

Time period for which the circular or advertisement is valid: This circular or advertisement shall be valid until the

expiry of six months from 31st March 2024 or until the date on which the financial statement is laid before the company in Annual General Meeting or if the annual general meeting for the year is not being held, the latest day on which the Annual General Meeting should have been held in accordance with the provisions of Companies Act, 2013, whichever is earliest. Reasons or objects of raising the deposits; The amount to be received through deposits shall be utilized for the

business and general corporate purposes of the company. The specific reason for raising the deposits is for working

Credit rating obtained: Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was obtained;

S. No.	Particulars	Details
1	Name of Credit Rating Agency	Brickwork Ratings
2	Rating Obtained	BWR FBBB- (Downgrade Stable)
3	Meaning of Rating Obtained	This rating indicates that the degree of safety regarding timely payment of interest and principal is Satisfactory. Changes in circumstances can affect such issues more than those in the higher rated categories.
4	Date on which rating was Obtained	30.10.2020

After getting the publicly available news on the action taken by Securities and Exchange Board of India against Brickwork Rating's License, the company has started the process of obtaining credit rating from another credit rating agency which is expected to be completed by 30th June 2023

Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any;

Not applicable being unsecured deposits and Company obtaining sufficient insurance coverage in due course. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

NIL. Deposits are being invited for the Company purposes.

DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

Rate of interest: From 6.50% to 7.94%

 a. Amount Outstanding; ₹ 342.87 lakhs excluding interest accrued but not due (as on 31st March 2023) (including unclaimed deposits ₹Nil) Date of acceptance: As per Companies Act 2013, on 25th June 2014 shareholder's permission was given which was

duly effective from 1st August 2014. As on 31st March 2023, the Company was having deposits accepted from Total amount accepted; ₹189.27 lakhs (including renewal) (from 01.04.2022 to 31.03.2023);

Total number of depositors: 88 depositors (including unclaimed deposits-4 nos.) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of

depositors, amount and duration of default involved; There was no default in repayment of deposit and in payment of interest thereon. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits;

FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement: (₹ in Lakhs)

20.000		CANADA CA	A TANAN A TANA				
S. No.	Particulars	Year 2022-23	Year 2021-22	Year 2020-21			
1.	Profit Before Tax	212.17	53.53	(475.54)			
2	Profit After Tax	38.70	26.97	(316.56)			

Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid);

Year

Year

Year

(₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	2022-23	2021-22	2020-21
1	Dividend declared		-	9.
Α	Rate of dividend per Share (in ₹)	0.20	0.10	NIL
B.	Amount of Dividend including corporate Dividend tax (in ₹)	63.67	31.78	NIL
2	Interest Coverage Ratio			
A.	Interest Paid (in ₹)	108.37	150.35	199.85
В.	Cash Profit/Loss After Tax plus Interest paid (in ₹)	215.18	177.32	(116.71)
C.	Interest Coverage Ratio	2.54	1.35	-1.37

preceding the date of issue of circular or advertisement; ₹ in Lakhs) S. No. | Particulars As on As on As on 31.03.2021 31.03.2023 31.03.2022 Assets 7464.03 7659.34 5725.84 Non-Current Assets 5732.75 5478.99 3882.74 Current Assets 9608.58 13196.78 13138.33 Total Equity and Liabilities 5090.02 Shareholders' Fund 5115.64 5053.03 Non-Current Liabilities 321.40 208.09 416.80 7759.74 7840.22 4138.75 Current Liabilities 13196.78 13138.33 9608.58 Total

d. Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or

~	7 #40 CS (24 CS 2 PS # CS 2 AS 2 S	* WARRANGE AND THE REAL PROPERTY AND THE REA	V-\$1000000000	
S. No.	Particulars	As on	As on	As on
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
1	Net Cash Flow from operating activities	725.31	2,418.30	758.00
2	Net Cash Flow from investing activities	(342.96)	(121.84)	491.69
3	Net Cash Flow from financing activities	(587.42)	(1,561.05)	₋ 513.74
	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1) + (2) + (3)	(205.08)	735.40	735.94

Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

DECLARATION BY THE DIRECTORS We, Directors of Transcorp International Limited do hereby declare THAT:-

Date:25.05.2023, Place:Jaipur

The company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest thereon:

The board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;

The company has compiled with the provisions of the Act and the rules made thereunder; The compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central

The deposits accepted by the company before the commencement of the Act have been repaid with interest on the due

dates and will be repaid along with interest as and when the deposit gets matured and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities; In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any

Disclaimer: "It is to be distinctly understood that filing of circular or circular in the Form of advertisement with the Registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by the Registrar or Central Government. The Registrar or Central Government does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for

For and on behalf of Board of Directors of Transcorp International Limited Gopal Krishan Sharma Sujan Sinha Hemant Kaul Vedant Kanoi Purushottam Agarwal Non- Executive Chairman Managing Director Director Director Director DIN: 00551588 DIN:00016883 DIN:02033322 DIN: 02102558

S. E. RAILWAY - TENDER

Tender Notice No. PCMM/GENL/TP/2023/30, Dated: 31/05/2023. Tender for "E"

Procurement System. The Principal Chief Materials Manager, South Eastern Railway, Hd. Qrs. Office (5th Floor), New Administrative Building, 11, Garden Reach Road, Kolkata-700043 for and on behalf of the President of India invites open E-tenders which have been uploaded on website www.ireps.gov.in as follows. All the tenders will be closed at 14.00 hrs. Sl.No.; Tender No.; Due Date; Brief Description; Quantity & EMD required or not, if yes please mention the amount are as follows: 1; 29233312; 23.06.2023; Set of kit for EP Relay valve; 550 sets & ₹ 4.67.860. 2; 25231253; 24.07.2023; Main Compressor Complete Assembly; 84 sets & ₹ 3,33,040. 3; 25231183; 02.08.2023; Set of Helical Springs for Primary Suspension of WAG7 Locos; 589 sets & ₹ 2,75,710. 4; 60230002; 27.06.2023; Running contract for Manufacture and supply of Metal Liner for use with ERC MK-III flat toe on concrete sleeper for 60 kg rail to Drg. No. RDSO/T-3740 Alt. 6 etc.; 63,95,702 nos. & ₹ 20,00,000. 5; 60225011A; 30.06.2023; Running Contract for manufacture & supply of 1M long Fish plates to RDSO Drg. No. T-5916 for 60 Kg Rails with latest alteration if any as on closing date of tender etc.; 29,010 nos. & ₹ 20,00,000. 6; 33231486; 12.06.2023; Non-Asbestos Based set of Brake Pad (1 No.-LH & 1 No.-RH) for Disc Brake system of LHB Coaches etc.; 16,928 nos. & ₹ 7,15,110, 7; 50233018; 28.06.2023; Supply of 2 MB programmable Primary Digital Drop Insert Multiplexer complete with all accessories as per RDSO Specification No. IRSTC68/2012 Rev.0, Amdt, 1 including cables and connectors required for connectivity with existing SDH equipment. The DI MUX shall be fully wired for 30 channels and equipped with (a) Power Supply Card - 02 nos. (b) NIM Card - 01 no., (c) Tributary Card - 01 no., (d) 2 W/4 W E&M card (4 circuits per card) - 05 nos. (e) 2 W subscriber loop interface card (4 circuit per card) - 01 no. and (f) 2 W Exchange loop interface card (4 circuits per card) - 01 no.; 43 sets & ₹ 1,48,470. 8; 47225013B; 30.06.2023; Supply of 1000 KVA Outdoor Transformer; 4 nos. & ₹ 1,67,040. Interested tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details/description/ specification of the tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for these items will be accepted. N.B: Prospective Bidders may regularly visit www.ireps.gov.in to participate in all other tenders.

Debts Recovery Tribunal 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh) Summons For Filing Reply & Appearance through Publication

(Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993) OANO 942/2022 DATE: 03.05.2023

HDFC BANK Limited

Divine Construction & Ors.

APPLICANT

Defendants To, 1. Divine Construction Through Its Proprietor Sf 52, Ansal Fortune Arcade, Sector-18,

Noida- 201301, U.P. 2. Mr. Dinesh Kumar S/o Shri Bhim Singh H -39, Delta-2, Rampur Jagir, Gautam Budh Nagar, I.A Surajpur, Ghaziabad-201306 3. Mr. Devi Singh S/o Bhanwar Singh Jattpur, Gautam Budh Nagar- 203203 Uttar Pradesh - India 4. Mr. Manveer Singh S/o Shri Sukhaveer 465, Gautampuri, Chamaran, Dadri, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad- 203207, U.p. In the above noted application, you are required to file reply/evidence in paper book form in Two

sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and there after to appear before the Tribunal on 16.11.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and REGISTRAR DEBTS RECOVERY TRIBUNAL Lucknow



कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्च की निविद्य निविद्य निविद्य समूच पत्रों अर्ह

तदहारा सचित किया जाता है कि प्राधिकरण के निम्न कार्यों हेत् सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / नेगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकायों में अर्ड श्रेणी में पंजीकरा फर्मों / ठेकेदारों से ई-निविदा आमन्त्रित ही जाती है। ई–निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाने वाली निविदा सम्बन्धी विवरण निम्नवत है–

ई-निविदा सूचना

तं0	काय का नाम	लागत का (लाक में)	जारी करने की तिथि व समय	प्राप्त करने जी अधिन जीवि व समय	क्षोलने की तिथि व समय	वर्गे मूल प्रतिया जेमा करने की तिथि व समग्र	श्रेणी
पूर	र्गकालीन ई-निविदा सूचना	100		A			
1.	Maintenance/Raising of Park (P-5) boundary wall at I.A. Site-4, Surajpur Distt. G.B. Nagar	24.70	05.06.2023 11:00 AM	26.06.2023 5:00 PM	27.06.2023 11:00 AM	30.06.2023 upto 5:00 PM	'बी'
अर	यकालीन ई-निविदा सूचना	10	40	9 (8)		8 92	
2.	Desilting of Drains at I.A. Surajpur EPIP, Kasna, Distt. G.B. Nagar	9.37	2)				सी
3.	Desilting of Drains at I.A. Sikandrabad Distt. Bulandshahar.	59.77	05.06.2023 11:00 AM		13.06.2023 11:00 AM	16.06.2023 upto 5.00 PM	''Υ'
4.	Desilting of Drains at I.A. Surajpur Site-5, Distt. G.B. Nagar.	24.87					'वी'
5.	Desilting of Drains at I.A. Surajpur	30.71	0				'सी'

नोटः निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जी0एस0टी0 सहित दरें अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की website:www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं युपीएलसी की website: www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा० निर्माण सण्ड-२, कासना गौतमबुद्ध नगर

INC - 26 [Pursuant to Rule 30 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI

Site-B & C. Distt. G.B. Nagar.

Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of Ncheng India Private Limited

In the matter of the Companies Act, 2013,

having its registered office at Plot No. 205, 2nd

Floor, Building No. 949, Gali No. 3, Naiwala,

Karol Bagh, New Delhi-110005 IN, Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to makeapplication to the Central Government under section 13 of

the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 21st February, 2023 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-

21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to The Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi at the address B-2 wing, 2nd Floor, Parvavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (Fourteen) days of the date of publication of this notice with a copy of the same to the Applicant Company at its Registered Office mentioned below:

Regd. office Address: Plot No. 205, 2nd Floor, Building No. 949, Gali No. 3, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005 IN For and on behalf of the Applicant Ncheng India Private Limited

Vishal Pawar Place: New Delhi Director Date: 01.06.2023 DIN: 07588386 enable the company to charge its regis-tered office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi/Haryana" to "State of Rajasthan". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds

of opposition to the "REGIONAL DIRECTOR,

NORTHERN REGION AT THE ADDRESS, B-2

WING, 2ND FLOOR, PT. DEENDAYAL ANTY-

ODAYA BHAWAN CGO COMPLEX, NEW

DELHI-110003", within Fourteen days from

the date of publication of this notice along

with a copy to the applicant company at its

below: "9A/9-10 BASEMENT EAST PATEL

NAGAR NEAR MOTHER DIARY BOOTH NEW

Registered office at the address mentione

FORM NO INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the

newspaper for change of registered office

of the company from one state to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION)

In the matter of the Companies Act, 2013,

Section 13(4) of Companies Act, 2013 and

Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND in the

matter of ALTITUDE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED having its registered office

at "9A/9-10 BASEMENT EAST PATEL NAGAR

NEAR MOTHER DIARY BOOTH NEW DELHI

110008 IN"...Applicant Company/Petitioner

Notice is hereby given to the General Public

that the company proposes to make an application to the Central Government,

powers delegated to Regional Director,

under section 13 of the Companies Act,

2013 seeking confirmation of alteration of

the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution

passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday, May 29, 2023 to

DELHI 110008 IN" For and on behalf of **ALTITUDE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED** SHYAM SUNDER KESHWANI (Director) Date: 29.05.2023 Place: NEW DELHI

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office- indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266 Branch Address:- Aditya Birla housing Finance limited | D-17, Basement, Sector 3, Noida, UP 201301

APPENDIX IV[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] POSSESSION NOTICE(for Immovable Property) Whereas the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing

Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a **Demand notice dated 15-05-2021 calling upon the borrow**ers Renuka Sharma&Ajay Sharma, seeking repayment of the amount mentioned in the notice being of Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Fourty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Thirty Eight Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 20th Day of May of the year, 2023.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Fourty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Thirty Eight Paise Only) and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Subsection 8 of Section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured

Description of the Immovable Property Flat bearing Unit No.B-1908, Block-B, admeasuring 1290 sq.ft., 19th Floor, Oasis Venetia Heights, Plot No.HRA12A, Surajpur, Site-C, Housing Complex, Greater Noida,

UP - 201308. Date: 20/05/2023 **Authorised Officer** Place: Noida Aditya Birla Housing Finance Limited

New Delhi

The deposits shall be used only for the purposes indicated in the circular or circular in the form of advertisement:

which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the circular or circular in the Form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing in the deposits schemes.*

DIN: 00272598

The deposits accepted by the company are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma

JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Nankhan Yadav

Date: 03-07-2023 CNR NO: PBLD03-037125-2019 Publication Issued To: Nankhan Yadav Address- 1204, Kulafat Ka Purwa Tihura Uparahar Ayodhya Kotav Faizabad 224135 UP

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana Date: 03-07-2023

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

M/s Mumal Enterprises CNR NO: PBLD03-044428-2019 Publication Issued To: M/s Mumal Enterprises Address- Prop Gajraj 128 Hinglaj Nagar B Lalanpura Vaishali Nagar Jaipur 302021 Rajasthan 02. Gajraj Prop Auth Sign Of M/s Mumal enterprises 128 Hinglaj Nagar B Lalanpura Vaishali Nagar

Jaipur 302001 Rajasthan Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma

JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Singh Date: 03-07-2023 CNR NO: PBLD03-028245-2019 Publication Issued To: Mohnit Singh S/o Harprem Kumar Singh Prop Of Gopalon Transport Company Village Gopalon Po Nandpur Tehsil Bassi Pathana Fatehgarh Sahib Near Gurduwara Fatehgarh Sahib 140412 Punjab

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma

JMIC Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Dharmendra Singh Parihar Date: 03-07-2023 CNR NO: PBLD03-037156-2019

Publication Issued To: Dharmendra Singh Parihar Address- A 1099 Avas Vikas Hanspuram Naubasta Kanpur 208027 UP Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-07-2023

at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ otice&district=ludhiana

(सिबिल प्रक्रिया संहिता का आदेश ५ नियम २०) न्यायालय बाणिज्यिक, गौतम बुद्ध नगर

प्रारुप संख्या – 1 क

मूल वाद संख्या 111 सन् 2021 केनरा (पूर्व में सिंडिकेट बैंक) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

अधिनियम, 1970) के अधीन गठित एक निगमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय 112 जि० सी० रोड, बैंगलोर में है और अनेक शाखाओं में से एक शाखा – कुलेसरा, नीयडा दादरी रोड, हल्दौनी, जिला – गौतम बृद्ध नगर, है द्वारा शाखा अटौर्नी 🖊 प्रबन्धक 🖊 अधिकृत अधिकारी

1. श्री भपेन्द्र कुमार भारद्वाज पुत्र स्व० श्री राम कुमार भारद्वाज निवासी ग्राम खैरपुर गुर्जर, पोस्ट बिसरख, ग्रेटर नौयडा (उ० प्र०) 201306 **व** 65, बाला जी पेन्ट्स, ग्राम हल्दौनी, ग्रेंटर नौयडा (उ० प्र०) 201308

यह कि वादी उपरोक्त ने उक्त वाद आप प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद वास्ते धनवसूली हेतू

के संस्थित किया है/आवेदन दाखिल किया है। अतः आपको इस न्यायालय में तारीख **17.07.2023** को दिन में 10 बजे प्रातः उत्तर देने के लिये व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिये सम्मन किया जाता है जिसमें असफल रहने पर वाद / आवेदन का एकपक्षीय निस्तारण किया जायेगा। आप यह तारीख 24.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया

आदेशानुसार, मुंसरिम



आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल,

गुजरात-362266, शाखा पताः आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस

न्यायालय वाणिज्यिक, गौतम बुद्धं नगर

लिमिटेड, डी-17, बेसमेंट, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (२००२ का ५४) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 15–05–2021 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः रेणुका शर्मा एवं अजय शर्मा को, सूचना में अंकित राशि रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख छियालिस हजार दो सौ बयानबे एवं अड़तीस पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 20 मई 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख छियालिस हजार दो सौ बयानबे एवं अड़तीस पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर नियत ब्याज हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपित्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट यूनिट नं. बी—1908, ब्लॉक—बी, अधिमापन 1290 वर्ग फुट, 19वां तल, ओसिस वेनेशिया हाइट्स, भूखंड सं. एचआरए12ए, सूरजपुर, साइट—सी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश—201308

दिनांक : 20-05-2023 स्थान : नोएडा आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

(सीआईएन: L24231UP1978PLC004583) पंजीकृत कार्यालयः 45/3 औद्योगिक क्षेत्र, साइट-IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201020 निगमित कार्यालयः 81, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपडगंज, दिल्ली-110092

ई-मेलः info@advance.co.in, वेबसाइटः www.advance.co.in 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के

(एकल) लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

			 (राशि करोड़ में ईपी	एस को छोड़कर्
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तद्नुरूपी 3 माह 31.03.2022
1.	परिचालनों से कुल आय	54.48	176.10	37.51
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	6.87	10.98	(2.38)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	6.75	10.86	(2.42)
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	5.53	8.61	(2.18)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	5.36	9.22	(3.61)
6.	प्रदत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 / –)	0.74	0.74	0.74
7.	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्ष्ति को छोड़कर, पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार)	-	103.09	-
8.	आय प्रति अंश रु. 10 / – प्रत्येक का (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों के लिए) क) मूलभूत ख) तरलीकृत	72.49	124.61	(48.79)

क. एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तूति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा निदेशक मंडल ने 30 मई 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठक में इनका अनुमोदन किया गया तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किये जाने के अधीन हैं और उन्होंने उपर्युक्त परिणामों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की है।

उपरोक्त वित्तीय परिणामों को. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्गत प्रासंगिक नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 तथा भारत में सामान्य रूप में स्वीकत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

पूर्ववर्ती अवधियों के आंकड़ों को, चालू अवधियों के आंकड़ों के अनुरूप पुष्ट कने के लिये, जहां–जहां अनिवार्य समझा गया है, वहां-वहां पुनर्समृहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। वित्तीय परिणाम का पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.cse-india.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट: www.advance.co.in पर ईमेलः info@advance.co.in पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थानः दिल्ली दिनांकः 30--05--2023

देवकी नंदन अग्रवाल (प्रबंध निदेशक) डीआईएन: 00586794

प्राधिकृत अधिकारी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्नि तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत। उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उव अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिय इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्ग की थीं, जिनमें अर्थात् सूचनाओं में ऋणकर्ता(ओं) को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राषि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा ऋणकर्ता(ऑ) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि यहां इसमें निम्न उल्लेखित धनराधियों का, मांग सूचन की तिथि(यों) से लेकर के भुगतान की तिथि तक आकलित भावी ब्याज के साथ, इस सूचना के प्रकाषन से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें

		ज्ञातमुगतान के प्रांत प्रस्तावित प्रांतमूर्त के विवरण निम्नानुसार हः—
ऋणकर्ता (औं)/ गारंटर (रों) के नाम श्री विशाल, श्रीमती गीता जाग्रति कलेक्शन, श्रीमती लक्ष्मी, श्री राजू राजू रेंटल (प्रोस्पेक्ट नं. आईएल10272093 और 980751)	आंग सूचना तिथि एवं राहि। 30-मई-2023 और रु.31,86,825/- (रुपये इकतीस लाख छियासी हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) हेतु आईएल10272093 और रु.1,07,175/- (रुपये एक लाख सात हजार एक सौ पिचहत्तर मात्र) हेतु 980751	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवस्ण संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः संपूर्ण संपत्ति मकान सं. 16/682-बी, भूमि क्षेत्राधिमापन 315 वर्ग फुट, कॉर्पेट क्षेत्र अधिमापन 936 वर्ग फुट और निर्मित क्षेत्राधिमापन 1102 वर्ग फुट जो अमृत कौर पुरी, टैंग रोड, करोल बाग, मध्य दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110005 में स्थित है।
मोहम्मद सुहैल मुमताज बेगम वसुंधरा हाट (प्रोस्पेक्ट नं. आईएल10207088)	30-मई-2023 रु. 25,04,506/- (रुपये पच्चीस लाख चार हजार पांच सौ छह मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः जो फ्लेट सं. जीएफ 3 के रूप में, भू तल पर, एम.आई.जी. पीछे की ओर, आरएचएस (छताधिकारों के बिना), अधि निर्मित क्षेत्रफल 484.4 वर्ग फुट, निर्मित स्वामित्वधारक आवासीय भूखंड सं. 3/408, सेक्टर–3, वसुंधरा, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद–201005 उत्तर प्रदेश में स्थित है।

संपूर्ण रूप में ऋणकर्ताओं के जोखिमों, लागतों एवं परिणामों पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा यथालागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से : कार्यालय संख्या 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट नंबर सी–1, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010 अथवा निगमित कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क करें। स्थान : गुड़गांव/वैशाली, दिनांक : 02-06-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि. CIN: L51909DL1994PLC235697

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नम्बर ३, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर १८ए, द्वारका, फेज—॥ नई दिल्ली—110075 Website: www.transcorpint.com, E-mail: grievance@transcorpint.com फोनः 30418901-05 फैक्सः 91-11-30418906

निक्षेयों को आमन्त्रित करने हेतु परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2) व धारा 76 व कम्पनी (निक्षेप को स्वीकार करने) नियम, 2014 के नियम 4 (1) एवं 4(2) के अनुसार)

सामान्य जानकारी

- अ). कम्पनी का नाम, पता, वेबसाईट व सम्पर्क का विवरण-
 - नाम : ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि
 - (1) पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. ३, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर १८ए, द्वारका, फेज-।।, नई दिल्ली- ११००७५
 - (2) प्रधान कार्यालयः ट्रांसकोर्प टावर, मोती ड्रंगरी रोड, जयपुर–302004
 - Website: www.transcorpint.com, e-mail-grievance@transcorpint.com फोनः 0141-4004888, 999 फैक्सः 0141-4004888
- व) निगमन की तिथि:— 20 दिसम्बर, 1994
- स) कम्पनी के कारोबार, सहायक कम्पनी, ब्रांच, इकाईयों की जानकारी
 - (1) कम्पनी के कारोबार की जानकारी: मुद्रा परिवर्तन, प्रीपेड भूगतान प्रणाली और दूसरे अन्य कई कारोबार
 - (2) शाखाऐं: नई दिल्ली (बाराखम्बा), अन्नासलाई (चेन्नई), जालन्धर, जयपुर, चंडीगढ, कलकत्ता, मुम्बई, अहमदाबाद, देहरादून, जम्मू, , गुड़गांव, लुधियाना, बँगलूरू,, अमृतसर, कोचिन,हैदराबाद, वडोदरा। प्रधान कार्यालयः जयपुर, पंजीकृत एवं कोर्पोरेट ऑफिसः– नईदिल्ली
 - (3) सहायक कंपनियांः
 - अ) नाम:— रिटकोट्रेवल्स एण्ड ट्यूर्स प्रा.लि.
 - रिथति:- पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
 - स) पताः ट्रांसकोर्प टावर, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर-302004
 - (द) व्यापार की जानकारी:— ट्यूर्स एवं ट्रेवल्स नाम:— ट्रांसकोर्प एस्टेटस प्रा.लि.
 - (2) स्थिति:- पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
 - (3) पता:— सी / ओ आईएचएमआर, दूसरी मंजिल, प्लाटनं. 3, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, फेज— । ।.
 - (4) व्यापार की जानकारी:- सम्पत्तियों के किराऐ पर देना, प्रोपर्टी एवं विनियोजन
 - अ) नाम:— ट्रांसवायर फॉरेक्स लि.
 - स्थिति:-पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
 - स) पताः सी/ओ आईएचएमआर, दूसरी मंजिल, प्लाटनं. ३, एच.ए.एफ, पॉकेट, सेक्टर १८ए, द्वारका, फेज-।।, नई दिल्ली-110075
 - (द) व्यापार की जानकारी:- मुद्रा परिवर्तन
 - (1) नाम:- ट्रांसकोर्प पेमेंटस लि.
 - (2) स्थिति:— पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
 - (3) पता:— सी / ओ आईएचएमआर, दूसरी मंजिल, प्लाटनं. 3, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, फेज— । ।, नई दिल्ली-110075
- (4) व्यापार की जानकारी:- प्रीपेड भूगतान प्रणली द) कंपनी के प्रबन्ध की संक्षिप्त जानकारी:-
- श्री हेमन्त कॅाल, निदेशक— श्री हेमन्त कॅाल को वितिय क्षेत्र में काफी व्यापक अनुभव है। वह बजाज एलियांज इंश्योरेंस
- कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और सी ई ओ अथवा एक्सिस बैंक में कार्यकारी निदेशक
- श्री गोपाल कृष्ण शर्मा प्रबंध निदेशक— श्री गोपाल कृष्ण शर्मा शर्मा कम्पनी में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। श्री गोपाल शर्मा को मुद्रा परिवर्तन, मनी ट्रान्सफर के व्यापार में विशाल अनुभव है।
- श्री पुरुषोतम अग्रवाल, निदेशक- श्री पुरुषोतम अग्रवाल एक सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है। अपने कार्यकाल के दोरान उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ औद्योगिक विकास में सराहनीय कार्य किया है। **श्री अशोक कुमार अग्रवाल, निदेशक** — श्री अशोक कुमार अग्रवाल कंपनी के निगमन की तिथि से सन 1994 से कंपनी
- के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। श्री अशोक कुमार अग्रवाल को विभिन्न व्यवसायों जैसे कि इन्फ्रास्ट्रकचर वित व हेल्थ मैनेजमेंट में व्यापक अनुभव है।
- श्री अग्रवाल वर्तमान में डब्लयू एच.ओ द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी आई आई एच एम आर के न्यासी हैं जो कि भारत की अग्रणी संस्थानों में से एक हैं।
- श्री अग्रवाल जॉन हापकिंस यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. के न्यासी हैं।
- श्री अग्रवाल एक चिकित्सक हैं व उन्होंने सामाजिक कार्यों व व्यवसायों में भारत से बाहर भी अपना नाम बनाया है।
- श्री वेदांत कनोई निदेशक श्री वेदांत कनोई निदेशक के रूप में कंपनी के साथ जुड़े हुए है। श्री कनोई को विभिन्न व्यवसायों में विशाल अनुभव है।
- श्री सुजान सिन्हा स्वतंत्र निदेशक-श्री सुजान सिन्हा जो कि 30 से अधिक वर्षों से वरिष्ठ वितीय व्यवसायी के रूप मे इस व्यवसाय में है, जिन्हे बैंक, एन.बी.एफ.सी., मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में काम का विशाल अनुभव है।
- श्री सुजान सिन्हा कोलकाता युनिवर्सिटी से भूगर्भशास्त्र में स्नातक है। श्री सुजान सिन्हा को 14 वर्षों से अधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच बेंकिंग, कार्मिक प्रशासन के साथ साथ विदेशी मुद्रा के काम का विशाल अनुभव है। इन्होंने कई प्राईवेट सेक्टर ग्रुप जैसे ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर उधा मार्टिन ग्रुप, जिसका सुमिटोमो कोर्पोरेशन जो कि जापान की कम्पनी है उसमें 50:50 जोइंट वेंचर है, उटीआई बैंक (बाद में जिसका नाम एक्सिस बैंक हो गया), श्रीराम ग्रुप में काम विशाल
- श्रीमती अप्रा कुच्छल, स्वतंत्र निदेशक-श्रीमती अप्रा कुच्छल मार्केटिंग और फाइनेंस में आईआईआईएम, जयपर से एम.बी.ए. और इंडियन इंस्टीटयुट ऑफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद से मेनेजमेंट डेवलेपमेंट प्रोग्राम को सर्टिफिकेट कॉर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टक्नोलोजी, जयपुर से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी प्रोग्राम कर रखा है तथा इसके साथ साथ उनका इसमें उत्कृष्ट उद्यमिता का कौशल हासिल है। श्रीमती अप्रा कृच्छल महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सामाजिक पहलों के लिए भी काम कर रही है।
- श्री दिलीप कुमार मोरवाल, कम्पनी सचिव- श्री दिलीप कुमार मोरवाल, कम्पनी सचिव के पद पर कार्यरत हैं व उन्हें कानुनी, सचिविय व वित्त सम्बन्धी क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
- श्री मुकेश कुमार मित्तल अंतरिम सीएफओ- श्री मुकेश कुमार मित्तल अंतरिम सीएफओ कंपनी के अंतरिम सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं। वे एक एमबीए वित्त और विपणन में रनातकोत्तर हैं और लेखा और वित्त क्षेत्र में 16 से अधिक वर्षों का अनभव रखते हैं।
- ई) निदेशकों का नाम, पता DIN व पेशे की जानकारी -

क्र.सं.	पूरा नाम	वर्तमान आवासीय पता	पद	DIN	पेशा
10	श्री हेमन्त कौल	ए-105. अत्रे पथ. श्याम नगर. जयपुर 302019 (राज)	गैर कार्यकारी अध्यक्ष	00551588	सलाहकार
2.	श्री गोपाल शर्मा	सी 142, द सम्मिट, पार्क ड्राईव, डीएलएफ फेज, 5 गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुड:गांव– 122011, हरियाना	प्रबंध निदेशक	00016883	सलाहकार
3.	श्री पुरुो षोत्तम अग्रवाल	51, गौरव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर—302007 (राज)	निदेशक	00272598	सलाहकार
4.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	डी–32ए, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर– 302001 (राज)	निदेशक	01237294	उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री वेदान्त कनोई	डी–1103, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली– 110025	निदेशक	02102558	उद्योगपति
6.	श्री सुजान सिन्हा	डी-704, आर .एन.ए. कोन्टिनेंटल, सुभाष नगर, चेम्बुर ईस्ट, मुम्बई- 400071	स्वतंत्र निदेशक	02033322	सलाहकार
7.	श्रीमती अप्रा कुच्छल	62, हरि किशन सोमानी मार्ग, हथरोई फोर्ट, अजमेर रोड, जयपुर— 302001	स्वतंत्र निदेशक	08453955	उद्योगपति

- मुद्रा की दरों में किसी भी परिवर्तन से कम्पनी के लाभों पर असर पड़ सकता है व इसकी ओर बाजार प्रतिस्पर्धा व सरकार की नीतियों में परिवर्तन का भी कम्पनी के परिणामों पर असर पड़ सकता है। कम्पनी ने जोखिमों के प्रबन्धन हेत् एक विस्तृत पॉलिसी बनाई है जिसके अन्तर्गत हर तिमाही पर संचालक मण्डल समस्त जोखिमों की स्थिति व उनके प्रबन्ध करने सम्बन्धी मामलों पर विचार करता है व तदानुसार कार्यवाही की जाती है।
- ज) निम्न के सम्बन्ध में भुगतान करने के सम्बन्ध में की गई चुक व उनकी राशि अवधि व वर्तमान स्थिति -
 - वैधानिक देय:— शून्य, कुछ मामलों में देरी को छोड़कर (ii) डिबेन्चर व उन पर देय ब्याज :– नहीं
 - (iii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण व उनके ब्याज के भुगतान :- नहीं
- 2. निक्षेप योजना का विवरण -
 - अ) प्रस्ताव पारित करने की तिथि— 11 अप्रेल 2018, 31 जुलाई 2015, 22 जुलाई 2016, 23 अक्टूबर 2016, 27 मई 2017, 21 जूलाई 2018, 29 अक्टूबर 2018, 10 अगस्त 2019, 20 जून 2020, 11 मई 2021, 07 मई 2022
 - ब) निक्षेपों को आमंत्रित करने का अधिकार प्रदान करने हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करने की तिथि-25 जून, 2014
 - स) निक्षेपों का प्रकार अर्थात् प्रतिभृतित या अप्रतिभृतित- अप्रतिभृतित
 - राशि जिसे निक्षेप के रूप में प्राप्त किया जा सकता है पिछले वित्तीय वर्ष अन्तिम दिन व इस परिपत्र को जारी करने की तिथि को निक्षेपों की राशि, निक्षेपों को वह राशि जिसे स्वीकारा जाएगा व अगले 12 माह में देय निक्षेप।

सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सुचना निर्गत की गयी थी। कर्जदार के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथ जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रू में कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ किसी पकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार ब्याज सहित नीचे वर्णित के लिए आईआईएचएफएल के अभियोग का विषय होगा। आईआईएफएल एचएफएल'' के बकायों को अदा कर देता है तो ''आईआई एफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री या अन्तरण नहीं किया जायेगा और प्रतिभृत आस्तियों के अन्तरण या बिक्री हेतु ''आईआईएफए

कर्जदार(रों)/	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रु.)	माँग ।	कब्जा
सह-कर्जदारों का नाम श्री शरद कुमार यादव श्रीमती पुनम यादव	अग्र लिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 5, भूमि क्षेत्र 2091.62 वर्ग फुट, कारपेट एरिया 2311.24 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्र 2719.10 वर्ग फीट, मौज	रु. 11,76,109/- (रुपये ग्यारह लाख छिहत्तर हजार एक सौ नौ मात्र) 800899 हेतु तथा	सूचना की तिथि	करने की तिथि 30-मई-
(प्रॉस्पेक्ट संख्या 800899 और 805056)	माई मिजापुरालियाद दामोदरपुरा, खसरा संख्या 10 और 11 में लक्ष्मी नगर आचार्य नगर विस्तार, तहसील और जिला मथुरा, उ.प्र. भारत – 281001 में स्थित है	रु. 23,88,416/– (रुपये तेईस लाख अट्ठासी हजार चार सौ सोलह मात्र) 805056 हेतु	09-मार्च- 2023	2023
श्री मोहम्मद अहसान	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति संख्या IV/ 2235, भूमि क्षेत्र	₹. 16,01,122/-	15-मार्च-	30-मई-
श्री मोहम्मद इस्लाम	360 वर्ग फुट, खसरा संख्या 2991/1004/480 में से, कारपेट एरिया 589 वर्ग	(रुपये सोलह लाख एक हजार एक सौ बाईस मात्र)	2023	2023
श्रीमती नसीमा बानो सारा	फुट, निर्मित क्षेत्र 648 वर्ग फुट, सुपर बिल्ट-अप एरिया 648 वर्ग फीट, बिहारी	971231 हेतु तथा रु. 1,10,289/-(रुपये एक लाख		
क्रिएशन (प्रॉस्पेक्ट संख्या	कॉलोनी की आबादी में गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में स्थित, गली नंबर	दस हजार दो सौ नवासी मात्र) 976374 हेत्		
971231 और 976374)	2, इलाका शाहदरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत -110032	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
श्री संजय पुरोहित श्रीमती पूजा	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः अपार्टमेंट नंबर-सन 6-0202, कारपेट	₹. 4,67,514/-	10-मार्च-	29-मई-
पुरोहित (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10010598)	एरिया 411 वर्ग फीट, सुपर बिल्ट-अप एरिया 706 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर- जीएच-03, दूसरी मंजिल, सेक्टर-ओमिक्रॉन थर्ड, मिगसन अल्टिमो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301	(रुपये चार लाख सड़सट हजार पांच सौ चौदह मात्र)		2023
श्रीमती सीमा जैन	अग्रलिखित सम्पति का समस्त भाग : भूतल, सम्पत्ति सं. बी-97 पर निर्मित,	₹. 22,43,246/-	16-अग	30-मई-
श्री पवन जैन	क्षेत्रफल माप 56.02 वर्ग मीटर, खसरा नं. 478 में से, खाता खतोनी नं. 17/46,	(रुपये बाईस लाख तैंतालीस हजार दो सौ छियालीस	2022	2023
(प्रॉस्पेक्ट संख्या 931056)	गली डाकघर, शकरपुर, मंडावली फजलपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली, 110092, दिल्ली, भारत।	मात्र)		
अधिक विवरण के लिए स	पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, शाखा कार्यालय : प्रथम तल टेरा ट	विर, भूतेश्वर रोड, मनोहरपुरा, मथुरा-281001, शार	बा कार्यालय	🗀 प्लॉट नं
🛮 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लो	ार, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती :	नगर, नई दिल्ली/अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट र	. i . 98, फेज	-IV, उद्योग

विहार, गुरुग्राम, हरियाणा।

वह राशि जितनी निक्षेप कम्पनी अधिनियम व नियमों के कम्पनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम 2014 के नियम 3 (4) अन्तर्गत स्वीकार की जा सकती है। (ए) के अनुसार – ₹511.56 लाख (शेयर पुँजी व स्वतंत्र संचयों का 10 प्रतिशत 31.3.2023) कम्पनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम 2014 के नियम 3 (4) (बी) के अनुसार — ₹1278.91 लाख (शेयर पूँजी व स्वतंत्र संचयों का 25 प्रतिशत 31.3.2023) 31.03.2023 को र342.87 लाख (88 निक्षेपधारी जिसमें रशून्य) पिछले वित्तीय वर्ष अंतिम दिन निक्षेपों की कोष राशि

अस्वामित्व निक्षेप सम्बन्धित है।

और ₹142.78 लाख (31.03.2025 तक)

आगामी 12 माह में देय राशिः ₹130.87 लाख (31.03.2024 तक)

ई) निक्षेपों को स्वीकार करने की दशाएँ — अवधि, ब्याज की दर, भुगतान का माध्यम एवं पूर्ण भुगतान

सावधि जमा योजना

इस परिपत्र को जारी करने की तिथि को निक्षेपों का परिपत्र जारी करने की तिथि: 25 मई 2023 ₹342.78 लाख

स्तर व निक्षेपों का प्रस्तावित स्तर व वे निक्षेप जिन्हें कितने निक्षेपों को स्वीकारा जाएगा- उपरोक्त क्रम सं. 1 में दी

योजना—1			योजना–2 (त्रैमासिक संचयी)				
अविघ	न्यूनतम जमा राशि (रूपयों में)	ब्याज की दर प्र.ब.	अवधि	न्यूनतम जमा राशि (रूपयों में)	ब्याज की दर प्र.ब. (तिमाही संचयी)	परिपक्वता राशि (रूपयों में)	वास्तविक उपज प्रति वर्ष
1 वर्ष	50,000	6.50%	1 वर्ष	50,000	6.66%	53,330	7.16%
2 वर्ष	50,000	7.00%	2 वर्ष	50,000	7.44%	57,444	7.94%

ट्रस्ट / सोसाइटियों की डिपोंजिट एवं 50 लाख से ऊपर की सिंगल डिपोजिट की ब्याज दरें समय सीमाओं के अधीन पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय की जाएगी।

भुगतान व पूर्ण भुगतान का माध्यम — चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक में अंतरण द्वारा

फ) योजना कब शुरू होगी व परिपत्र / विज्ञापन की वैधता अवधि

अगले 12 माह में चुकाया जाना है। (मतल्ब अगले 2 गई राशि।

साल तक)

- योजना की शुरू होने की तिथि 25 मई 2023
- (2) परिपन्न / विज्ञापन की वैधता अवधि -यह परिपन्न या विज्ञापन 31 मार्च 2023 के छः माह या वार्षिक साधारण सभा में खाके प्रस्तुत करने की तिथि या वार्षिक साधारण सभा की देय तिथि दोनों में से जो पहले हो वह वैध रहेगा।
- ज) निक्षेप प्राप्त करने का उद्देश्य— निक्षेप से प्राप्त धन का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनों व अन्य कार्पोरेट उददेश्यों हेत् किया जाएगा
- एव) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ली गई रेटिंग का मतलब— रेटिंग प्राप्त करने की तिथि

क्र.सं. विवरण		विवरण		
1.	रेटिंग एजेंसी का नाम	र्बिकवर्क रेटिंग्स		
2.	ली गई रेटिंग	BWR FBBB- (पर्याप्त सुरक्षा)		
3.	ली गई रेटिंग का मतलब	यह रेटिंग कम्पनी के मूलधन व ब्याज के भुगतान की प्याप्त सुरक्षा को दर्शाती है। दशाओं में परिवर्तन इन मामलों को उच्च रेटिंग से ज्यादा प्रभावित कर सकती है।		
4.	वह तिथि जब रेटिंग प्राप्त की गई है	30.10.2020		

ब्रिकवर्क रेटिंग के लाइसेंस के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खबर मिलने के बाद, कंपनी ने एक अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके 30 जून 2023 तक पुरा होने की उम्मीद है।

- आइ) निक्षेपों को प्रत्यामृतित (स्रक्षित करने का विवरण)— निक्षेप अप्रतिभृतित है व कम्पनी इनके भूगतान को स्रक्षित करने हेत् उचित बीमा ले लेगी।
- ज) निर्देशकों, के.एम.पी. व प्रमोटरों का निक्षेपों में हित जो कि अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न हो— शुन्य, निक्षेपों
- का उपयोग कम्पनी के प्रयोजनाओं में किया जाएगा। अशोधित निक्षेपों का विवरण -
 - (1) राशि ₹342.87 लाख अर्जित ब्यज जो देय नहीं हुआ है को छोड़कर (31.03.2021) को (अनक्लेम्ड निक्षेप ₹शून्य)
 - (2) स्वीकार करने की तिथि 01.04.2012 से 31.03.2023 विभिन्न तिथियों पर
 - (3) स्वीकार की गई राशि ₹189.27 लाख (रिनिवल शमिल है) (01.04.2022 से 31.03.2023 तक)
 - (4) ब्याज की दर 6.50% से 7.94% तक। (5) निक्षेपधारियों की संख्या – 88 निक्षेपधारी (जिसमें शून्य अनक्लेम्ड निक्षेप शामिल हैं) निक्षेप व उस पर ब्याज के भुगतान में की गई त्रुटि का विवरण (यदि कोई है) - कम्पनी ने निक्षेपों के भुगतान में व उन पर
 - देय ब्याज के भगतान में कोई त्रृटि नहीं की है। (7) यदि निक्षेप व अर्जित ब्याज के भुगतान सम्बन्धी कोई त्रुटि की गई हो तो उसका विवरण - शून्य
- - कम्पनी की वित्तीय स्थिति :-(क) काराजी का साथ करों से पूर्व ह करों के हाट प्रविपाद को जारी करते के पूर्व के तीन गाओं हेत

(31)	(লাভ			
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2022-23	वर्ष 2021-2022	वर्ष 2020-21
1.	करो से पूर्व लाभ	212.17	53.53	(475.54)
2.	करों के बाद लाभ	38.70	26.97	(316.56)

कम्पनी द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश, ब्याज भुगतान राशियों व नकद लाभ (लाख में) क्र.सं. वर्ष 2022-23 वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-2022 घोषित लाभाश (अ) लाभांश की दर (प्रति अंश) 0.20 0.10 शुन्य (ब) लाभांश की राशि (कर सहित) 63.67 31.78 शुन्य ब्याज भुगतान/कवरेज रेश्यो (अ) भूगतान किया ब्याज 108.37 150.35 199.85 (ब) करों के बाद नकद लाभ व ब्याज 215.18 177.32 (116.71)2.54 1.35 -1.37(स) ब्याज भुगतान / कव रेज रेश्यो

सी) कम्पनी के परिपत्र / विज्ञापन के पिछले तीन अंकेक्षित खातों का संक्षिप्त विवरण-(लाख में) विवरण क्र.सं. वर्ष 2022-23 वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-2022 आस्तिया (1) गैर चालू आस्तिया 7464.03 7659.34 5725.84 5732.75 5478.99 3882.74 (2) चाल आस्ति या 13196.78 13138.33 9608.58 पॅजी का दायित्व (1) अंशधारियों का फंड 5115.64 5090.02 5053.03 (2) गैर चाल दायित्व 321.40 208.09 416.80 7840.22 4138.74 7759.74 (3) चालू दायित्व

डी) परिपत्र / विज्ञापन के जारी करने के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित कैश फ्लो का विवरण (लाख में) विवरण 31.3.2022 को 31.3.2023 को 31.3.2021 को संचालन से नेट केश पलो 725.31 2,418.30 758.00 विनियोजन से नेट कैश फ्लो (342.96)(121.84)491.69 (587.42)वित्तीय कार्यों से नेट कैश फ्लो (1,561.05)-513.74

13196.78

13138.33

9608.58

(205.08)735.40 735.94 वृद्धि / घटौती (1+2+3) d. पिछले तीन वर्षों में लेखा निधि में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा व उससे लाभ व संचयों पर परिवर्तन का ब्यौरा-

 निदेशकों की घोषणा – हम टान्सकोर्प इंटरनेशनल के निदेशक घोषणा करते हैं कि – कम्पनी ने इस अधिनियम के शुरू होने से पूर्व या बाद में स्वीकार किए निक्षेपों के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की है।

(2) निदेशकों ने सभी तथ्यों की जाँच कर ली है व घोषित करते हैं कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठीक है व कम्पनी समस्त दायित्वों के भूगतान करने में सक्षम रहेगी व कम्पनी परिपत्र को जारी करने के एक वर्ष तक दिवालिया नहीं होगी। (3) कम्पनी ने अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों का पालन कर लिया है।

(4) कम्पनी ने इस अधिनियम के शुरू होने से पूर्व स्वीकार की गई निक्षेपों का भूगतान समय पर किया है व आने वाले समय में भी देय होने पर समय पर भुगतान करेगी व भुगतान किए जाने तक ये सभी निक्षेप अन्य अप्रत्याभूतित दायित्वों के समान ही रहेगी। (5) यदि कम्पनी की क्रेडिट वेटिंग में कोई विपरीत परिवर्तन होता है तो कम्पनी निक्षेप धारकों को निक्षेप वापिस लेने का

पर्याप्त अवसर देगी। (6) निक्षेपों द्वारा प्राप्त राशि का प्रयोग घोषित प्रयोजनों हेत् ही किया जायेगा ।

(7) कम्पनी द्वारा स्वीकृत निक्षेप अप्रत्याभूतित है व अन्य अप्रत्याभूतित दायित्वों के समान (Pari passu) है। **अस्वीकरणः** यह साफ समझ लिया जाए कि जो परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र रजिस्ट्रार को जमा कराया गया है उसे रजिस्ट्रार

या केंद्र सरकार की अनुमति ना समझा जाए। निक्षेप योजना की वित्तीय सुदृढ़ता जिसके लिए निक्षेप आमंत्रित किए गए हैं या वित्तीय विवरण की यथार्थता अथवा परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र जिस पर राय अभिव्यक्त की गई है, उसके लिए रजिस्टार या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निक्षेपधारियों से अनुरोध है कि निक्षेप योजना में निवेश करने से पहले यथोचित जांच कर लें। ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल के निदेशक मण्डल की ओर से

हेमन्त कॉल श्री गोपाल कृष्ण शर्मा सुजान सिन्हा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक निदेशक

निदेशक निदेशक DIN: 00551588 DIN: 00016883 DIN:02033322 DIN: 00272598 DIN: 02102558 दिनांक : 25.05.2023, स्थान : जयपुर

हस्ता. / -

नकद व नकद के समान में नेट

वेदांत कनोई

पुरषोत्तम अग्रवाल